



अरुण का एक और हत्याभियुक्त दबोचा

- थाना पनकी पुलिस एक अभियुक्त कल भेज चुकी जेल
- दूसरे अभियुक्त के पास हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद
- भौती बाईपास नहर पुल के पास से दबोचा गया

थाना पनकी पुलिस ने अरुण कुमार कुरील की हत्या में शामिल एक और अभियुक्त को दबोच लिया। अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।

थाना पनकी पुलिस ने गुरुवार को मु0अ0सं0 299/22 धारा 302/201/364/34 भादवि में वांछित अपराधी संदीप कुमार कश्यप पुत्र हरीलाल निवासी ग्राम सपई थाना बिधनू कानपुर नगर जो कि अपहृत अरुण कुमार कुरील का अपहरण कर हत्या के मुकदमें में वांछित था। उसे भौती बाईपास पुल के पास से दबोच लिया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मु0अ0सं0 301/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कर रही है। थाना पनकी पुलिस इसके एक दिन पहले बुधवार को हत्या में शामिल एक और अभियुक्त अमित कुमार उर्फ गुड्डु पुत्र हरीलाल कश्यप निवासी ग्राम सपई थाना बिधनु को भी जेल भेज चुकी है। अभी घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. संदीप कुमार कश्यप पुत्र हरीलाल निवासी ग्राम सपई थाना बिधनू कानपुर नगर उम्र 24 वर्ष

यह हुई बरामदगी

एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक कारतूस 315 बोर,
एक मोटर साइकिल नं0 UP 78 FB 5495 टी0वी0एस0 स्पोर्ट

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 299/22 धारा302/201/364/34 भादवि थाना पनकी
2. मु0अ0सं0 301/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पनकी

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अंजन कुमार सिंह, उ0नि0 प्रमोद पाण्डेय चौकी, उ0नि0 धन सिंह, हे0का0 नन्द किशोर, का0अनिल कुमार, हे0का0विष्णु पाल सिंह शामिल रहे।